

विषय-सूची

भाग-I

| | |
|--|---------|
| ● भौतिक विज्ञान | 1-128 |
| 1. मात्रक, विमाएँ एवं त्रुटि (Unit, Dimensions and Error) | 3-8 |
| 2. सदिश विश्लेषण (Vector Analysis) | 9-15 |
| 3. गति (Motion) | 16-21 |
| 4. गति के नियम एवं घर्षण (Laws of Motion and Friction) | 22-26 |
| 5. वृत्तीय गति (Circular Motion) | 27-29 |
| 6. कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा (Work, Power and Energy) | 30-33 |
| 7. द्रव्यमान केन्द्र एवं घूर्णन गति (Centre of Mass and Rotational Motion) | 34-38 |
| 8. गुरुत्वाकर्षण (Gravitation) | 39-42 |
| 9. ठोसों के यांत्रिक गुण (Mechanical Properties of Solids) | 43-45 |
| 10. तरलों के यांत्रिक गुण (Mechanical Properties of Fluids) | 46-50 |
| 11. ऊष्मीय भौतिकी (Thermal Physics) | 51-58 |
| 12. ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) | 59-62 |
| 13. दोलन (Oscillations) | 63-66 |
| 14. तरंग गति एवं डॉप्लर प्रभाव (Wave Motion and Doppler's Effect) | 67-74 |
| 15. स्थिर वैद्युतिकी (Electrostatics) | 75-80 |
| 16. संधारित्र (Capacitor) | 81-84 |
| 17. विद्युत् धारा (Electric Current) | 85-89 |
| 18. विद्युत् धारा के चुम्बकीय प्रभाव एवं चुम्बकत्व (Magnetic Effects of Electric Current and Magnetism) | 90-94 |
| 19. विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा (Electromagnetic Induction and Alternative Current) | 95-99 |
| 20. आधुनिक भौतिकी (Modern Physics) | 100-104 |
| 21. नाभिकीय भौतिकी (Nuclear Physics) | 105-108 |
| 22. किरण प्रकाशिकी (Ray Optics) | 109-118 |
| 23. तरंग प्रकाशिकी (प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण एवं विवर्तन) (Wave Optics) | 119-123 |
| 24. इलेक्ट्रॉनिकी (Electronics) | 124-128 |

भाग-II

| | |
|---|---------|
| ● रसायन विज्ञान | 1-192 |
| 1. रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएँ (Some Basic Concepts of Chemistry) | 2-7 |
| 2. परमाणु संरचना (Atomic Structure) | 8-13 |
| 3. तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता (Classification of Elements and Periodicity in Properties) | 14-18 |
| 4. रासायनिक आबंधन तथा आण्विक रचना (Chemical Bonding and Molecular Structure) | 19-25 |
| 5. द्रव की अवस्थाएँ (States of Matter) | 26-30 |
| 6. ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) | 31-35 |
| 7. साम्यावस्था (Equilibrium) | 36-42 |
| 8. अपचयोपचन अभिक्रियाएँ (Redox Reactions) | 43-46 |
| 9. हाइड्रोजन (Hydrogen) | 47-50 |
| 10. <i>s</i> -ब्लॉक तत्व (क्षार, धातुएँ व क्षारीय मृदा धातुएँ) (<i>s</i> -Block Elements Alkali Metals and Alkaline Earth Metals) | 51-55 |
| 11. <i>p</i> -ब्लॉक के तत्व (<i>p</i> -Block Elements) | 56-65 |
| 12. <i>d</i> तथा <i>f</i> -ब्लॉक के तत्व (<i>d</i> and <i>f</i> -Block Elements) | 66-74 |
| 13. विद्युत् रसायन (Electro Chemistry) | 75-80 |
| 14. ठोस अवस्था (Solid State) | 81-84 |
| 15. विलयन (Solution) | 85-90 |
| 16. रासायनिक बलगतिकी (Chemical Kinetics) | 91-93 |
| 17. पृष्ठ रसायन (Surface Chemistry) | 94-100 |
| 18. धातुकर्म (Metallurgy) | 101-104 |
| 19. उप सहसंयोजन यौगिक (Coordination Compounds) | 105-109 |
| 20. सामान्य कार्बनिक रसायन (एक परिचय) [General Organic Chemistry (An Introduction)] | 110-115 |
| 21. हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons) | 116-125 |
| 22. हैलोजेनयुक्त यौगिक (Halogen Containing Compounds) | 126-131 |
| 23. ऐल्कोहॉल, फीनॉल तथा ईथर (Alcohols, Phenols and Ethers) | 132-141 |
| 24. ऐल्डिहाइड एवं कीटोन (Aldehydes and Ketons) | 142-151 |
| 25. कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न (Carboxylic Acids and their Derivatives) | 152-163 |
| 26. नाइट्रोजनयुक्त यौगिक (Nitrogen Containing Compounds) | 164-172 |
| 27. जैव अणु (Bio-Molecules) | 173-180 |
| 28. बहुलक (Polymers) | 181-186 |
| 29. क्रिया में रसायन (Chemistry in Action) | 187-192 |

भाग-III

| | |
|--|---------------|
| ● बीजगणित (Algebra) | 3–32 |
| 1. समुच्चय (Sets) | 3 |
| 2. सम्बन्ध (Relation) | 6 |
| 3. समिश्र संख्याएँ (Complex Numbers) | 10 |
| 4. समान्तर श्रेढ़ी (Arithmetic Progression) | 15 |
| 5. गुणोत्तर श्रेढ़ी (Geometric Progression) | 19 |
| 6. क्रमचय और संचय (Permutations and Combinations) | 23 |
| 7. द्विघात समीकरण (Quadratic Equations) | 26 |
| 8. द्विपद प्रमेय (Binomial Theorem) | 29 |
| ● आवृह एव सारणिक (Matrices and Determinants) | 33–41 |
| ● त्रिकोणमिति (Trigonometry) | 42–57 |
| 1. सर्वसमिकाएँ एवं त्रिकोणमितीय अनुपात (Identities and Trigonometric Ratio's) | 42 |
| 2. सरल सर्वसमिकाएँ (Simple Identities) | 48 |
| 3. त्रिभुजों के गुण (Properties of Triangles) | 51 |
| 4. त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन (Inverse Trigonometrical Functions) | 54 |
| ● निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry) | 58–78 |
| 1. आयताकार कार्तीय निर्देशांक और ऋजु रेखाएँ (Rectangular Cartesian Co-ordinates and Straight Lines) | 58 |
| 2. वृत्त (The Circle) | 63 |
| 3. परवलय (The Parabola) | 67 |
| 4. दीर्घवृत्त (The Ellipse) | 71 |
| 5. अतिपरवलय (The Hyperbola) | 75 |
| ● अवकलन गणित (Differential Calculus) | 79–93 |
| 1. सीमा और सततता (Limit and Continuity) | 79 |
| 2. अवकलन (Differentiation) | 87 |
| ● समाकलन गणित और अवकल समीकरण (Integral Calculus and Differential Equations) | 94–119 |
| 1. अनिश्चित समाकलन (Indefinite Integrals) | 94 |
| 2. निश्चित समाकलन (Definite Integrals) | 102 |
| 3. अवकल समीकरण (Differential Equations) | 108 |
| 4. अवकल समीकरण के प्रश्नों पर अनुप्रयोग (वृद्धि और क्षय) [Problems on Applications of Differential Equation (Growth and Decay)] | 118 |

| | |
|--|----------------|
| ● सांख्यिकी और प्रायिकता (Statistics and Probability)..... | 120–135 |
| 1. बारंबारता बंटन, माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन (Frequency Distribution, Mean, Median, Mode and Standard Deviation) | 120 |
| 2. प्रायिकता (Probability) | 128 |
| ● सामान्य गणित | 1–68 |
| — चारों मौलिक प्रक्रियाएँ | 3 |
| — दशमलव भिन्न | 7 |
| — महत्तम समापवर्तक एवं लघुतम समापवर्त्य | 9 |
| — साधारण भिन्न | 12 |
| — वर्गमूल | 17 |
| — प्रतिशत | 19 |
| — अनुपात व समानुपात | 24 |
| — साझा | 27 |
| — लाभ-हानि | 29 |
| — काम और समय | 35 |
| — समय तथा दूरी | 41 |
| — ब्याज | 46 |
| — औसत | 52 |
| — क्षेत्रफल | 56 |
| — आयतन | 60 |
| — स्टॉक तथा शेयर | 63 |